



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 106]
No. 106]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1979/चैत्र 12, 1901
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1979/CHAITRA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूति और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

सा० का० नि० 327 (अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनायक-निस्सारित तेल, वित्तित भोजन और खाने योग्य घाटा (नियंत्रक) आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विनायक-निस्सारित तेल, वित्तित भोजन और खाने योग्य घाटा (नियंत्रक) संशोधन आदेश, 1979 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विनायक निस्सारित तेल, वित्तित भोजन और खाने योग्य घाटा (नियंत्रक) आदेश, 1967 में, खण्ड 3 के उपखंड (2) में पैरा (V) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(v) प्रथम ‘ङ’ :—ऐसा उत्पादक—(क) जिसके कारखाने में यद्यपि विनायक निस्सारण संयंत्र नहीं लगा है, फिर भी वह अपनी तेल-मील में अपने द्वारा उत्पादित खली या अपने द्वारा आयातित तिलहन से, किसी अन्य उत्पादक के कारखाने में विनायक, निस्सारित तेल या वित्तित भोजन के विनिर्माण संबंधी कारबार में नियोजित है ।

(ख) जिसकी अपनी ही कोई तेल-मील नहीं है, किन्तु जिसे केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, नियंत्रक ने लिखित आदेश द्वारा और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है,

किसी अन्य उत्पादक के कारखाने में अपने द्वारा उत्पादित तेल वाले पदार्थों का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा दे दी गई है ;

परन्तु नियंत्रक केवल निम्नलिखित शर्तों पर ऐसी अनुज्ञा देगा, अर्थात् :—

(क) यह कि ऐसा प्रसंस्करण नियंत्रक की पूर्व सहमति से किया जाएगा ;

(ख) यह कि नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तेल वाले पदार्थों से भिन्न किसी तेल वाले पदार्थ का इस प्रकार प्रसंस्करण नहीं किया जाएगा ;

(ग) यह कि खण्ड (क) के अधीन नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तेल वाले पदार्थ का प्रसंस्करण, ऐसे कारखाने/कारखानों के परिसरों में जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा ; और

(घ) प्रसंस्करण नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।”

3. उक्त आदेश की प्रथम अनुसूची में —

(i) पैरा 1 में “जिनसे आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह कलेंडर मासों की अवधि के पूर्व या उसके दौरान विनायक निस्सारित तेल का उत्पादन प्रारम्भ किया था, और” शब्दों के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

या

जिसकी अपनी ही कोई तेल मील नहीं है, किन्तु जिसे केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से नियंत्रक ने लिखित आदेश द्वारा और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, नीचे वर्णित उत्पादक (उत्पादकों) के, जिनका प्रथम उनके नाम के

सामने विनिर्दिष्ट किया गया है, कारखाने/कारखानों में अपने द्वारा उत्पन्न तेल वाले पदार्थों का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा वे भी हैं :

उत्पादक का नाम अनुज्ञप्ति सं० प्रवर्ग कारखाने का नाम

(ii) अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

केवल प्रवर्ग 'क' के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए जिन्हें अनुज्ञप्ति खण्ड 2 (v)(ख) के अधीन जारी की गई है, —

(1) ऐसी तेल वाली सामग्री से, जो उसके द्वारा उत्पन्न की गई है, विनायक निस्सारित तेल और विनिर्मित भोजन का विनिर्माण, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट उत्पादकों के कारखाने/कारखानों में ही किया जा सकता है, किसी अन्य कारखाने में नहीं ।

(2) उपरोक्त (1) में निर्दिष्ट किसी विनिर्माण स्थल के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि, —

(क) यह कि ऐसा प्रसंस्करण नियंत्रक की पूर्ण सहमति से किया जाएगा;

(ख) यह कि नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तेल वाले पदार्थों से निम्न किसी तेल वाले पदार्थ का इस प्रकार प्रसंस्करण नहीं किया जाएगा;

(ग) यह कि खण्ड (क) के अधीन नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट तेल वाले पदार्थ, का प्रसंस्करण, ऐसे कारखाने/कारखानों के परिसरों में, जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा; और

(घ) प्रसंस्करण नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि,—

(i) कोई भी विनायक निस्सारित तेल सीधे मानव उपभोग के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ताप (जो 180° से० ग्रे० से कम नहीं होगा) और निम्न दाब (जो निरपेक्ष पारद के 25 मि० सी० से अधिक नहीं होगा) के अधीन शून्य-निष्प्रायित, विरंजित और वाष्प-निर्गन्धीकृत न कर दिया जाए और वह तृतीय अनुसूची के अनुरूप न हो जाए ।

(ii) कोई भी विनायक निस्सारित तेल विक्रय के लिए या सीधे मानव उपभोग के लिए परिष्करण के प्रयोजनों के लिए या वनस्पति के विनिर्माण के लिए उसके द्वारा तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह तृतीय अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट क्वालिटी-मानकों के अनुरूप नहीं है, और

(iii) किसी भी विनिर्मित भोजन को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग के लिए विक्रय के लिए उसके द्वारा तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाए जब तक कि वह तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्वालिटी-मानकों के अनुरूप न हो ।

[2-एस० ई० ओ० (1)/79]

दम्प्र मोहन सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

ORDER

New Delhi, 2nd April, 1979

G.S.R. 327(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-Oiled Meal and Edible Flour (Control) Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, in sub-clause (2) of clause 3, for paragraph (v), the following paragraph shall be substituted, namely :—

“(v) Category ‘E’—in respect of a producer, —

(a) whose factory though not equipped with a solvent-extraction plant, is still engaged in the business of manufacturing solvent-extracted oil or de-oiled meal in the factory of any other producer from out of the oilcake produced by him in his own oil mill or from oil-seeds imported by him ;

(b) who is not equipped with his own oil mill, but is permitted by the Controller, with the prior concurrence of the Central Government, by order in writing and on being satisfied that there are sufficient grounds for so doing, to process oil-bearing material procured by him in the factory of any other producer :

Provided that the Controller shall not give any such permission except on the following conditions, namely :—

(a) that such processing is done with the prior concurrence of the Controller ;

(b) that no oil-bearing material other than that specified by the Controller would be so processed ;

(c) that the processing of the oil-bearing material specified by the Controller under clause (a), shall to the extent specified by the Controller, be in the premises of such factory/factories as may be specified by the Controller; and

(d) that the processing shall be completed within the period specified by the Controller.”

3. In the First Schedule to, the said Order,

(i) in paragraph 1, before the sub-paragraph beginning with the words “who commended production of solvent extracted oil” and ending with the words “the date of application, and”, the following shall be inserted, namely :—

OR

who is not equipped with his own oil mill, but is permitted by the Controller, with the prior concurrence of the Central Government, by order in writing and on being satisfied that there are sufficient grounds for so doing, to process oil-bearing material procured by him in the factory/factories of the under-mentioned producer(s) of the categories specified against each :—

Name of producer	Licence No.	Category	Name of factory
------------------	-------------	----------	-----------------

(ii) the following shall be added at the end, namely :—

For category ‘E’ licensees issued under clause 2(v)(b) only.

(1) The manufactured of solvent-extracted oil and de-oiled meal from the oil bearing material procured by him may be

carried out only in the factory/factories of the producers specified in para 1, and not in any other factory.

(2) Notwithstanding the place of manufacture referred to (1) above, it will be the responsibility of the licensee to ensure that,—

- (a) such processing is done with the prior concurrence of the Controller ;
- (b) no oil bearing material other than that specified by the Controller would be so processed ;
- (c) the processing of the oil-bearing material specified by the Controller shall, to the extent specified by the Controller, be in the premises of such factory/factories as may be specified by the Controller; and
- (d) the processing shall be completed within the period specified by the Controller.

(3) The licensee would further ensure that :—

- (i) no solvent-extracted oil is offered by him for sale for purposes of direct human consumption unless it has been alkali-neutralized, bleached and steam-deodorized under temperature (not less than 180° C) and low pressure (not more than 25 mm of mercury absolute) and conforms to the standards of quality specified in Part I of the Third Schedule ;
- (ii) no solvent-extracted oil is offered by him for sale or for purposes of refining for direct human consumption or for manufacture of vanaspathi unless it conforms to the standards of quality specified in Part II of the Third Schedule ; and
- (iii) no deoiled meal is offered by him for sale for use as livestock feed unless it conforms to the standards of quality specified in the Fourth Schedule.

[2-SEO(1)/79]

I. M. SAHAI, Joint Secy.

